

शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली

वार्षिक पाठ्यक्रम

कक्षा-XI

विषय- व्यवसाय अध्ययन (054)

सत्र: (2026-27)

भाग A: व्यवसाय की नींव

अवधारणा में अर्थ और विशेषताये शामिल है

इकाई 1: व्यवसाय का विकास और मूलभूत बातें

- भारत में व्यापार और वाणिज्य का इतिहास: स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली, मध्यस्थों का उदय, परिवहन, व्यापारिक समुदाय: व्यापारी निगम, प्रमुख व्यापार केंद्र, प्रमुख आयात और निर्यात, विश्व अर्थव्यवस्था में भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति।
- व्यवसाय - अर्थ और विशेषताएँ
- व्यवसाय, व्यवसायिक पेशा और रोजगार - अवधारणा
- व्यवसाय के उद्देश्य (आर्थिक और सामाजिक उद्देश्य तथा व्यवसाय में लाभ की भूमिका)
- व्यवसाय गतिविधियों का वर्गीकरण - उद्योग और वाणिज्य
- उद्योग के प्रकार: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक - अर्थ और उपसमूह
- वाणिज्य - व्यापार (प्रकार: आंतरिक, बाहरी; थोक और खुदरा) तथा व्यापार के सहायक (बैंकिंग, बीमा, परिवहन, गोदाम, संचार और विज्ञापन) - अर्थ
- व्यवसाय जोखिम - अवधारणा

इकाई 2: व्यवसाय संगठन के रूप

- एकल स्वामित्व - अवधारणा, लाभ और सीमाएँ
- साझेदारी - अवधारणा, प्रकार, लाभ और सीमाएँ; साझेदारी फर्म का पंजीकरण, साझेदारी विलेख, साझेदारों के प्रकार
- हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय - अवधारणा
- सहकारी समितियाँ - अवधारणा, लाभ और सीमाएँ
- कंपनी - अवधारणा, लाभ और सीमाएँ; प्रकार: निजी, सार्वजनिक और एक व्यक्ति कंपनी - अवधारणा
- कंपनी का गठन - चरण, गठन में प्रयुक्त महत्वपूर्ण दस्तावेज
- व्यवसाय संगठन के रूप का चयन (चयन को प्रभावित करने वाले कारक)

इकाई 3: सार्वजनिक, निजी और वैश्विक उद्यम

- सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र उद्यम - अवधारणा
- सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप: विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम और सरकारी कंपनी (विशेषताएँ, लाभ और सीमाएँ)
- वैश्विक उद्यम - विशेषताएँ, संयुक्त उपक्रम
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी - अवधारणा (अर्थ और विशेषताएँ)

इकाई 4: व्यवसाय सेवाएँ

- व्यवसाय सेवाएँ - अर्थ और प्रकार
- बैंकिंग: बैंक खातों के प्रकार - बचत, चालू, आवर्ती, सावधि जमा और बहु विकल्प जमा खाते
- बैंकिंग सेवाएँ: बैंक ड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, नकद ऋण और ई-बैंकिंग - अर्थ; डिजिटल भुगतान के प्रकार
- बीमा - सिद्धांत, प्रकार: जीवन, स्वास्थ्य, अग्नि और समुद्री बीमा - अवधारणा
- डाक सेवाएँ: मेल, पंजीकृत डाक, पार्सल, स्पीड पोस्ट और कुरियर - अर्थ

इकाई 5: व्यवसाय के उभरते रूप

- ई-व्यवसाय - अवधारणा, क्षेत्र और लाभ

मध्यावधि पाठ्यक्रम 5 सितम्बर 2026 तक पूर्ण करना है।

मध्यावधि परीक्षा

- मध्यावधि प्रश्नपत्र पर चर्चा

इकाई 6: व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारी और व्यवसाय नैतिकता

- सामाजिक जिम्मेदारी की अवधारणा
 - सामाजिक जिम्मेदारी का मामला
 - मालिकों, निवेशकों, उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, सरकार और समुदाय के प्रति जिम्मेदारी
 - पर्यावरण संरक्षण में व्यवसाय की भूमिका
 - व्यवसाय नैतिकता - अवधारणा और तत्व
-

भाग B: वित्त और व्यापार

इकाई 7: व्यवसाय वित्त के स्रोत

- व्यवसाय वित्त की अवधारणा
- स्वामी निधि - इक्विटी शेयर, वरीयता शेयर
- संचित आय
- उधार निधि: डिबेंचर और बॉन्ड, वित्तीय संस्थानों और वाणिज्यिक बैंकों से ऋण, सार्वजनिक जमा, व्यापार ऋण, अंतर-निगम जमा (ICD)

इकाई 8: लघु व्यवसाय और उद्यम

- उद्यमिता विकास (ED): अवधारणा, विशेषताएँ और आवश्यकता
- उद्यमिता विकास की प्रक्रिया: स्टार्ट-अप इंडिया योजना, स्टार्ट-अप को वित्तपोषित करने के तरीके
- बौद्धिक संपदा अधिकार और उद्यमिता
- MSMED अधिनियम 2006 के अनुसार लघु उद्यम की परिभाषा
- भारत में लघु व्यवसाय की भूमिका, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में
- लघु उद्योगों के लिए सरकारी योजनाएँ और एजेंसियाँ
- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) और जिला उद्योग केंद्र (DIC), विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में

इकाई 9: आंतरिक व्यापार

- आंतरिक व्यापार – अर्थ और प्रकार
- थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ
- खुदरा व्यापार के प्रकार: भ्रमणशील और छोटे स्थायी दुकान व्यापारी
- बड़े पैमाने पर खुदरा व्यापारी – डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर – अवधारणा
- वस्तु एवं सेवा कर (GST): अवधारणा और प्रमुख विशेषताएँ

इकाई 10: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार – अवधारणा और लाभ
- निर्यात व्यापार – अर्थ और प्रक्रिया
- आयात व्यापार – अर्थ और प्रक्रिया
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त दस्तावेज: इंडेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट, शिपिंग ऑर्डर, शिपिंग बिल, मेट्स रिसीट (DA/DP)
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) – अर्थ और उद्देश्य

पाठ्यक्रम 30 जनवरी 2027 तक पूर्ण करना है।

प्रश्नपत्र डिजाइन (व्यवसाय अध्ययन, विषय कोड 054, कक्षा XI, 2026-27)

अंक: 80

समय: 3 घंटे

क्रमांक प्रश्नों की प्रकृति

अं प्रतिश क त

- | | | | |
|---|---|----|-----|
| 1 | स्मरण और समझ: तथ्यों, शब्दों, मूल अवधारणाओं और उत्तरों को याद करना। तथ्यों और विचारों को व्यवस्थित करना, तुलना करना, अनुवाद करना, व्याख्या करना, विवरण देना और मुख्य विचार बताना। | 32 | 40% |
| 2 | अनुप्रयोग: अर्जित ज्ञान, तथ्य, तकनीक और नियमों को नए तरीके से लागू करके समस्याओं का समाधान करना। | 24 | 30% |

क्रमांक	प्रश्नों की प्रकृति	अंक	प्रतिशत
3	विश्लेषण, मूल्यांकन और सृजन: जानकारी को भागों में विभाजित करना, कारणों की पहचान करना। सामान्यीकरण का समर्थन करने के लिए साक्ष्य खोजना। विचारों की वैधता या कार्य की गुणवत्ता पर निर्णय देना। तत्वों को नए पैटर्न में संयोजित करना या वैकल्पिक समाधान प्रस्तावित करना।	24	30%
	कुल	80	100%